

अध्याय - 5 | सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था

QUIZ-01

1. वह कौन-सी अर्थव्यवस्था है जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों भाग लेते हैं?

- A. समाजवादी अर्थव्यवस्था B. पूंजीवादी अर्थव्यवस्था
C. मिश्रित अर्थव्यवस्था D. बाजार अर्थव्यवस्था

(C)

व्याख्या: मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी उद्यम और सरकार दोनों आर्थिक गतिविधियों में भाग लेते हैं।

2. निम्नलिखित में से कौन पूंजी प्राप्ति (Capital Receipt) का उदाहरण है?

- A. व्यक्तिगत आयकर
B. सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से लाभांश
C. सरकारी शेयरों की बिक्री
D. ऋणों पर प्राप्त ब्याज

(C)

व्याख्या: सरकारी शेयरों की बिक्री वित्तीय संपत्ति को कम करती है, इसलिए यह पूंजी प्राप्ति मानी जाती है।

3. सार्वजनिक प्रावधान (Public Provision) का क्या अर्थ है?

- A. निजी फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुएँ
B. सरकार द्वारा बजट से वित्तपोषित वस्तुएँ
C. प्रतिस्पर्धी बाजार में बेची जाने वाली वस्तुएँ
D. आम जनता के उपयोग से वंचित वस्तुएँ

(B)

व्याख्या: सार्वजनिक प्रावधान का अर्थ है कि वस्तुएँ सरकार द्वारा बजट से वित्तपोषित होती हैं और बिना प्रत्यक्ष भुगतान के उपलब्ध कराई जाती हैं।

4. निम्नलिखित में से कौन-सा कर प्रत्यक्ष कर (Direct Tax) है?

- A. उत्पाद शुल्क
B. निगम कर (Corporation Tax)
C. सीमा शुल्क
D. वस्तु एवं सेवा कर (GST)

(B)

व्याख्या: निगम कर सीधे कंपनियों के मुनाफे पर लगाया जाता है और इसे प्रत्यक्ष कर कहा जाता है।

5. राजस्व बजट में क्या शामिल होता है?

- A. ऋण और संपत्ति की बिक्री
B. राजस्व प्राप्तियाँ और राजस्व व्यय
C. पूंजी प्राप्तियाँ और पूंजी व्यय
D. बाजार उधारी

(B)

व्याख्या: राजस्व बजट में राजस्व प्राप्तियाँ और राजस्व व्यय दोनों को शामिल किया जाता है।

6. राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) किसे दर्शाता है?

- A. राजस्व प्राप्तियाँ, राजस्व व्यय से अधिक हैं
B. कुल व्यय, कुल प्राप्तियों से कम है
C. सरकार की उधारी आवश्यकता
D. केवल बाहरी ऋण

(C)

व्याख्या: राजकोषीय घाटा दर्शाता है कि सरकार को अपने कुल व्यय के लिए कितनी उधारी की आवश्यकता है।

7. राजस्व घाटा की गणना कैसे की जाती है?

- A. राजस्व प्राप्तियाँ – राजस्व व्यय
B. राजस्व व्यय – राजस्व प्राप्तियाँ
C. पूंजी प्राप्तियाँ – पूंजी व्यय
D. कुल व्यय – कुल प्राप्तियाँ

(B)

व्याख्या: राजस्व घाटा = राजस्व व्यय – राजस्व प्राप्तियाँ

8. ऐसा कौन-सा व्यय है जो किसी भौतिक या वित्तीय संपत्ति का निर्माण नहीं करता?

- A. पूंजी व्यय B. बजट अधिशेष
C. राजस्व व्यय D. राजकोषीय उधारी

(C)

व्याख्या: राजस्व व्यय में सरकार के सामान्य कार्यों पर खर्च किया जाता है, जिससे कोई नई परिसंपत्ति नहीं बनती।

9. संतुलित बजट गुणक (Balanced Budget Multiplier) का मान क्या होता है?

- A. 0 B. 1 से कम
C. 1 से अधिक D. 1

(D)

व्याख्या: संतुलित बजट गुणक का मान 1 होता है, यानी जितनी राशि खर्च की जाती है उतनी ही आय बढ़ती है।

10. 'क्राउडिंग आउट' (Crowding Out) शब्द किसको दर्शाता है?

- A. सार्वजनिक निवेश से निजी बचत में वृद्धि
B. निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक वस्तुओं का प्रतिस्थापन
C. सरकार की उधारी से निजी निवेश में कमी
D. सार्वजनिक वस्तुओं का प्रतिस्पर्धी बनना

(C)

व्याख्या: जब सरकार वित्तीय संसाधनों का बड़ा हिस्सा उधारी के रूप में ले लेती है, तो निजी निवेश के लिए पूंजी कम बचती है, इसे क्राउडिंग आउट कहते हैं।